



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड III subsec II
PART II—Section III subsec II
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 306]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 1979/आश्विन 6, 1901

No. 306]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 1979/ASVINA 6, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1979

सीमा-शुल्क

सां० कां० नि० 552 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 246 सी० शु०, तारीख 30 दिसम्बर, 1978 को अधिकांश करने हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारी, मध्यम और हल्के वाणिज्यिक मोटर यानों के, जब ऐसे किसी यान का प्रयोग व्यक्तिवा, माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाए, या ट्रैक्टरों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को और ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल को :—

(क) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से, जो मूल्यानुसार शुल्क के 25 प्रतिशत से अधिक है, और

(ख) उस सम्पूर्ण अतिरिक्त शुल्क से, जो उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर कहीं भी उद्ग्रहणीय है,

निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

- (1) इसमें अंतर्निहित छूट केवल ऐसे संघटकों और ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल को लागू होगी जो महानिदेशक, तकनीकी विकास और भारी उद्योग विभाग, दोनों द्वारा, प्रमाणित सूचियों के अंतर्गत आते हैं ; और
- (2) आयातकर्ता को संघटकों या माल की निकासी के समय महायुक्त सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष यह माध्य प्रस्तुत करना चाहिए कि उनके पास यथास्थिति व्यक्तियों, माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए ऐसे मोटर यानों या ट्रैक्टरों या ऐसे यानों के लिए संघटकों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय और महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा मध्यकर्ता अनुमोदित कार्यक्रम है।
- (3) आयातकर्ता, ऐसी अवधि के भीतर, जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, महानिदेशक, तकनीकी विकास से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि आयातित संघटकों या माल का प्रयोग, व्यक्तियों, माल या सामग्री का परिवहन करने के लिए मोटर यानों के या ट्रैक्टरों के या ऐसे संघटकों के विनिर्माण में किया गया है या जो उन विनिर्माताओं को प्रदाय किए गए हैं जो यथास्थिति, भारी, मध्यम या हल्के वाणिज्यिक मोटर यानों या ट्रैक्टरों के विनिर्माण में लगे हैं।

2 यह अधिसूचना 31 मार्च, 1980 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख थी है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 200/कां० सं० 355/46/79- सी० शु०]

सं० का० वि० 553 (अ) :—केन्द्रीय सरकार विन अधिनियम 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 110 सी० शु०, तारीख 10 मई, 1979 को अधिकांश करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारी, मध्यम और हल्के वाणिज्यिक मोटरयानों के, जब ऐसे किसी यान का प्रयोग व्यक्तियों, माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाए, या ट्रैक्टरों के और ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों को, विन अधिनियम, 1979 (1979 का 21) की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त सहायक सीमाशुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

- (1) इसमें अंतर्निहित छूट केवल ऐसे संघटकों और ऐसे संघटकों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित माल को लागू होगी जो महाविदेशक, तकनीकी विकास और भारी उद्योग विभाग, दोनों द्वारा, प्रमाणित सूचियों के अंतर्गत आते हैं; और
- (2) आयातकर्ता को संघटक या माल की निकासी के समय सहायक सीमाशुल्क कलक्टर के समक्ष यह साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि उनके पास यथास्थिति, व्यक्तियों माल या वस्तुओं के परिवहन के लिए ऐसे मोटर यानों या ट्रैक्टरों या ऐसे यानों के लिए संघटकों के विनिर्माण के लिए उद्योग मंत्रालय और महानिदेशक तकनीकी विकास द्वारा सम्पन्न अनुमोदित कार्यक्रम है।
- (3) आयातकर्ता, ऐसी अवधि के भीतर, जो सीमाशुल्क सहायक कलक्टर इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर, महानिदेशक, तकनीकी विकास से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा कि आयातित संघटकों या माल का प्रयोग, व्यक्तियों, माल या सामग्री का परिवहन करने के लिए मोटर यानों के या ट्रैक्टरों के या ऐसे संघटकों के विनिर्माण में किया गया है या जो उन विनिर्माताओं को प्रदाय किए गए हैं जो यथास्थिति, भारी मध्यम, या हल्के वाणिज्यिक मोटर यानों या ट्रैक्टरों के विनिर्माण में लगे हैं।

2. यह अधिसूचना 31 मार्च, 1980 तक, जिसके अन्तर्गत यह तारीख थी है, प्रवृत्त रहेगी।

[सं० 201 का० सं० 355/46/79-सी० शु०]
के० चन्द्रमोली, धवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 28th September, 1979

CUSTOMS

G.S.R. 552(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Govern-

ment of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 246-Customs dated the 30th December, 1978, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the components required for the manufacture of heavy commercial motor vehicles, medium commercial motor vehicles or light commercial motor vehicles where any such motor vehicles are used for the transport of persons, goods or materials or of tractors, and the goods required for the manufacture of such components from—

(a) so much of the duty of customs which is leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as is in excess of 25 per cent ad valorem; and

(b) the whole of the additional duty, wherever leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act,

subject to the conditions that—

(1) the exemption contained herein shall be applicable only to those components and the goods required for the manufacture of such components which are covered by lists certified both by the Director General of Technical Development and the Department of Heavy Industry;

(ii) the importer should produce evidence to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the components or the goods that they have a programme duly approved by the Ministry of Industry and the Director General of Technical Development for the manufacture of such motor vehicles for the transport of persons, goods or materials, or of tractors or for the manufacture of components for such vehicles as the case may be; and

(iii) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate from the Director General of Technical Development to the effect that the imported components or the goods have been used in the manufacture of motor vehicles, for the transport of persons, goods or materials or of tractors, or for the manufacture of such components which have been supplied to the manufacturers engaged in the production of heavy commercial motor vehicles, medium commercial motor vehicles or light commercial motor vehicles or of tractors, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1980.

[Notfn. No. 200/F. No. 355/46/79-Cus. I]

G.S.R. 553(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 110-Customs dated the 10th May, 1979, the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the components required for the manufacture of heavy commercial motor vehicles, medium commercial motor vehicles or light commercial motor vehicles where any such motor vehicles are used for

the transport of persons, goods or materials or of tractors and the goods required for the manufacture of such components from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-section (1) of section 31 of the Finance Act, 1979 (21 of 1979), subject to the following conditions, namely:—

- (i) the exemption contained herein shall be applicable only to those components and the goods required for the manufacture of such components which are covered by lists certified both by the Director-General of Technical Development and the Department of Heavy Industry;
- (ii) the importer should produce evidence to the Assistant Collector of Customs at the time of clearance of the components or the goods, that they have a programme duly approved by the Ministry of Industry and the Director-General of Technical Development for the manufacture of such motor vehicles for the transport of persons, goods or materials, or of tractors or for the manufacture of components for such vehicles as the case may be; and

- (iii) the importer shall, within such period as the Assistant Collector of Customs may specify in this behalf, produce a certificate from the Director-General of Technical Development to the effect that the imported components or the goods have been used in the manufacture of motor vehicles for the transport of persons, goods or materials or of tractors, or for the manufacture of such components which have been supplied to the manufacturers engaged in the production of heavy commercial motor vehicles medium commercial motor vehicles or light commercial motor vehicles or of tractors, as the case may be.

2. This notification shall be in force upto and inclusive of the 31st day of March, 1980

[Notfn. No. 201/F. No. 355/46/79-Cus. I]

K. CHANDRAMOULI, Under Secy.

